

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं० 232] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 1975/आषाढ 13, 1897

No. 232] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 1975/ASADHA 13, 1897

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

*New Delhi, the 3rd July, 1975*

**S.O. 308(E).**—Whereas in the opinion of the Central Government it is necessary and expedient so to do for maintaining supplies and services essential to the life of the community;

And whereas any strike in the Food Corporation of India would prejudicially affect the maintenance of supplies and services essential to the life of the community it is necessary and expedient to prevent strikes in the said Corporation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 118 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby prohibits any strike in connection with any industrial dispute in the said Corporation for a period of six months with effect the 4th July, 1975.

[No. S-42025/13/75-DKIA.]

D. BANDYOPADHYAY, Jt. Secy.

## अम सञ्चालय

## आदेश

नई दिल्ली, 3 जुलाई 1975

का०आ० 308 (अ) —यतः केन्द्रीय सरकार की राय में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाएँ बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

और यतः भारत खाद्य निगम में कोई हड़ताल समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस लिए उक्त निगम में हड़तालों को रोकना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः अब भारत रक्षा नियम 1971 के नियम 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त निगम में किसी भी औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित हड़ताल को 4 जुलाई 1975 से छः माह के लिए प्रतिषिद्ध करती है ।

[सं० एस०-42025/13/75-डी०के०आई०ए०]

देवश्रन बन्धोपाध्याय, संयुक्त सचिव ।